

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक - 1393.../सिकहरना, ढाका, दिनांक-16/11/2023

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।

विषय :- M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


16/11/23


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।
16/11/23

Rural Works Department
Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)
Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date		Administrative Approval		Agreement Amount (in		Agreement t No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completi on	Value of R/I (in mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentag e	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to date expenditu re as per MIS	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks								
				Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectificatio n with surface Renewal (in Lakh)	5 Var Routine Maintena nce (in Lakh)																				
1	RM/EA/SIK/23/0003	Pipra to Stripur	31708602124	1.045	69.08200	56.91121	13.12051	03 MBD/ 2023-24-19.10.2023											18.07.2024		2085.00	25	5	0.00	0.00	55.89142	
2		Inarwa Phulwar to Phulwar tak	31708602164	1.000	64.00600	50.21629	14.15545	18.07.2024		2364.40	25	5	0.00	0.00	48.95276												
3		Bankatwa Inarwa Phulwar to Majirwa Birta tola (Khairwa Ward No.-8)	31708612011	0.932	60.00800	47.40666	13.24781	18.07.2024		2548.56	25	5	0.00	0.00	46.34254												
Total :-																			151.18672								

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कमीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विनिर्देशों के अनुरूप है।

Divisional Accounts Officer
Rural Works Div, Dhaka

Executive Engineer
RWD (W) Div. Dhaka

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....

MR-3054 (New Maintenance Policy)**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. <u>576.98602</u> Lacs received the year 2023-24 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. <u>576.98602</u> lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. <u>Nil</u> Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



Divisional Account Officer
R.W.D. (W) Div., Dhaka


Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Executive Engineer
R.W.D.(W) Div., Dhaka


16/11/23

Name of Road :- Inarwa phulwar to phulwar tak

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEG ORY	Latitude	Longitude	Event
16/11/23	04:58:19	11	0.1	230	20.2	2300	2404 G		3.3	26.76974	85.0203 Normal
16/11/23	04:58:54	11	0.1	210	30.3	2100	2205 G		3.06	26.76973	85.0203 Normal
16/11/23	04:59:0	11	0.1	160	30.3	1600	1706 G		2.43	26.76951	85.02111 Normal
16/11/23	04:59:0	11	0.1	230	30.3	2300	2404 G		3.3	26.76931	85.02237 Normal
16/11/23	04:59:0	11	0.1	240	40.4	2400	2504 G		3.42	26.76936	85.02289 Normal
16/11/23	04:59:29	11	0.1	190	40.4	1900	2005 G		2.81	26.76942	85.0238 Normal
16/11/23	04:59:29	11	0.1	250	40.4	2500	2604 G		3.55	26.7699	85.02459 Normal
16/11/23	04:59:29	11	0.1	350	20.2	3500	3602 G		4.74	26.76979	85.02609 Culvert
16/11/23	05:0:5	11	0.1	210	30.3	2100	2205 G		3.06	26.76974	85.02702 Normal
16/11/23	05:0:5	11	0.1	190	40.4	1900	2005 G		2.81	26.76962	85.02825 Normal
Total IRI SUM							23644				
Total IRI Average							2364.4				

Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division, Dhaka

Handwritten signature
16.11.23
EE

Name of Customer : M/s R.N Construction
 Name of Work/ Road : Inarwa phulwar to phulwar tak
 Lab Job number :
 Date : 16-11-2023
 Section No. : 11


Test Date : 16-11-2023 Road Name : Inarwa phulwar to phulwar tak
 Machine No : 378 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No : Side :
 Start E No : Interval
 Weather : UV Range : 706 To 5000 1000 mm/km
 Start Location : Dist Range : 0 To 1.1 0.1 * 1000 m
 End Location : Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 1095$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : F:\Bump Dhaka\MS R.N Construction\Bankatwa chawk to pipra pearpur\New folder\10101435.xls, Section No.
 Name of Customer : M/s R.N Construction, Name of Work/ Road : Inarwa phulwar to phulwar tak, Lab Job number :



Handwritten signature
 16.11.23

Executive Engineer
 R. W. D. (Works)
 Division, Dhaka